

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक 132 (अनु०).....पालीगंज/दिनांक 10/02/2025

प्रेषक,

ई० रवि शंकर कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह- सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:-


शीर्ष MR 3054 Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अंतर्गत
आवंटन का अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR 3054 Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अंतर्गत पथों का अधियाचना का माँग विहित प्रपत्र में तैयार कर Signed Hard Copy of Recorded IRI के साथ अधियाचना हेतु भेजी जा रही है।
अतः अनुरोध है कि उक्त योजना का आवंटन उपलब्ध करने की कृपा की जाय, ताकि संवेदक का भुगतान हो सकें।


अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


10/2/25


10/02/25

ई० रवि शंकर कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।


10-02-25

FORM GFR 19-A
(See Government of India's Decision (I) below Rule-150
Form of Utilization Certificate up to the month- Dec 2024
New Maintenance Policy 2018 MR (3054)

PIU – R.W.D. Works Division Paliganj

SL. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1.	Construction of Rural Roads under New Maintenance Policy 2018 MR (3054)	Letter No. 140 & Date 27.12.2024	8982.56222	Certified that out of Rs 8982.56222 Lakhs received upto the years 24-25 in favour of Ex. Engineer, RWD Works Division, Paliganj a sum of Rs 8927.42165 lakhs has been utilized for the purpose of New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 55.14057 lakhs remaining unutilized at the end of the period.
	Total		8982.56222	

2. Certified that I have satisfied may self that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of Checks exercised-


- i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer
- ii. Periodical inspection has been conducted by Executive engineer/Superintending Engineer
- iii. Construction materials have been tested.
- iv. Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer
- v. All other codal formalities have been observed.

Physical Progress achieved-

- i. Construction of Road Works
- ii. Construction of C.D. Works


D.A.O.
10/10/25
RWD (w) Div. Paliganj


10/12/25
Executive Engineer
Rural Work Department
Work Division Paliganj


10.01.25

Name of Division : Paliganj

Requestion Form for Scheme Headed under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval Letter No. & Date	Administrative Approval (Rs)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of Road (in m.m.km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen content in Percentage	Previous Total Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount of (in Lakh)	Amount (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
1	RM/PA/PA/L/2/0005	1051 - R.T/LAB TO BHALLUA (TRACK12)	10100502002	457 & 04.07.2022	1	67.98000	48.01763	6.6539	05 NMBD/NR-3054/2023-23 & 10.10.2023	09.07.2024	11.11.2024	3025.7	100 mm	0%	46.91238	46.91238	0.86305	
1	RM/PA/PA/L/24/0001	Pitwas to Dhuin Bazar via Alampur, Dhuin, Mahabulpur, Sherpur, Nathi, Sorampur, Mahabulag, Pathak Milk	1151899264	1963 & 31.03.2023	8.26	522.519	425.8025	66.84885	06 NMBD/NR-3054/2023-23 & 11/4/2023	03.08.2024	15.10.2024	2749.3	25mm SDBC	5%	421.04697	421.04697	4.22955	
1	RM/PA/PA/L/24/0003	T02 To Dairypur Daiti Tola	10H00513003	6120 & 04.12.2023	0.73	42.564	41.79099	2.4629	12 NMBD/NR-3054/2023-24 & 15.03.2024	14.12.2024	11.11.2024	2404.3	125 mm Pannel Concrete	Pannel Concrete payment	41.06524	41.06524	0.58619	

अगर यह नई प्रस्तावित है तो
निर्माण के अंतर्गत है वह कारण
अतिरिक्त कर या और कोई वृत्त
अतिरिक्त कर या और कोई वृत्त
या अतिरिक्त कर या और कोई वृत्त है ।

Divisional Accounts Officer
Rural Work Department
Work Division Paliganj

10/10/25

10/10/25

Executive Engineer
RWD Work Division, Paliganj

Name of The Road : T02 To Dariyapur Dalit Tola

Length : 0.730 KM

Package No. : RM/PA/PAL/24/0003

Division : Paliganj

Block : Naubatpur

Contractor Name : Mukund Kumar

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event			
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD						
21/09/24	11:25:00	62	0.1	220	0	2200	2337	G	25.478528	84.928518	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$		
21/09/24	11:25:22	62	0.1	190	30.3	2973	3061	G	25.478024	84.928154	Curve	X = 2500		
21/09/24	11:25:52	62	0.1	210	30.3	2100	2244	G	25.477898	84.928633	Normal	Y = 2618		
21/09/24	11:30:12	63	0.1	190	0	1900	2056	G	25.477049	84.927911	Normal			
21/09/24	11:30:31	63	0.1	210	30.3	2300	2431	G	25.477202	84.928754	Curve	(R) RURAL ROAD		
21/09/24	11:30:52	63	0.1	330	30.3	2200	2337	G	25.476784	84.929602	Curve	Good	Average	Poor
21/09/24	11:31:11	63	0.1	110	30.3	2000	2150	G	25.476342	84.930477	Normal	<4000	4001-5000	>5001
21/09/24	11:31:36	63	0.03	240	30.3	2500	2618	G	25.476097	84.931077	Normal			
Total			0.73	1700	181.8	18173	19234		203.817924	679.433126				
Average						2271.625	2404.25							

Sanj
23.09.24
Z T Gnanajun

Sanj
23/09/24
020

Sanj
23/09/2024
AE

Sanj
23/09/24
EE

Name of Customer : Mukund Kumar
Name of Work/ Road : T02 To Dariyapur Dalit Tola
Lab Job number :
Date : 21-09-2024
Section No. : 62

Test Date : 21-09-2024 Road Name : T02 To Dariyapur Dalit Tola
Machine No : 374 Road Type : (R) RURAL ROAD
Start S No : Side :
Start E No : Interval
Weather : UIV Range : 1244 To 4000 1000 mm/km
Start Location : Dist Range : 0 To 0.4 0.1 * 1000 m
End Location : Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$

Print


Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\DELL\Desktop\13031050.Xls.xlsx. Section No. : 62. Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$

Name of Customer : Mukund Kumar, Name of Work/ Road : T02 To Dariyapur Dalit Tola, Lab Job number :



23-09-24
ET Chamegaur

23/09/24
AF

23/09/2024
AF

23/9/24
EE



Scanned with OKEN Scanner

Name of Customer : Mukund Kumar
Name of Work/ Road : T02 To Dariyapur Dalit Tola
Lab Job number :
Date : 21-09-2024
Section No. : 63

Test Date : 21-09-2024
Machine No : 374
Start S No :
Start E No :
Weather :
Start Location :
End Location :
Road Name : T02 To Dariyapur Dalit Tola
Road Type : (R) RURAL ROAD
Side :
Interval :
UIV Range : 1056 To 4000 1000 mm/km
Dist Range : 0 To 0.6 0.1 * 1000 m
Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$


Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\DELL\Desktop\13031050.Xls.xlsx, Section No. : 63, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.936 * X + 278.4$
Name of Customer : Mukund Kumar, Name of Work/ Road : T02 To Dariyapur Dalit Tola, Lab Job number :



23.09.24
27 of anagum

28/09/24
20

28/09/2024
A.R.

23/9/24
GG



Scanned with OKEN Scanner